

To, BSE Ltd.

26th February, 2025

Department of Corporate Services Corporate Relationship Department Phiroze Jee Jeebhoy, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai- 400001

Ref .: Company Code no. 531395 PADAMCO

Sub.: Submission of Copies of Newspaper Publication of Record Date for Bonus Issue

Dear Sir/Ma'am,

This letter is in reference to the captioned subject in this regard we are enclosing herewith copy of newspaper cuttings of publication for the Record Date of Bonus Equity Shares of the Company.

The above Record Date Details were published in the following Newspaper:

- 1. Financial Express dated 26th February, 2025 (Wednesday) (English) published from New Delhi.
- 2. Jansatta dated 26th February, 2025 (Wednesday) (Hindi) published from New Delhi.

You are requested to take the aforesaid information on record.

Thanking you.

For and Behalf of Padam Cotton Yarns Limited

NEERAJ

Digitally signed by **NEERAJ CHUGH** CHUGH Date: 2025.02.26

Neeraj Chugh

Company Secretary & Compliance Officer

M. No.: A61326

**Encl: As Above** 







FINANCIAL EXPRESS

### **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, CHANDIGARH (DRT 2)** 1st Floor, SCO 33-34-35 Sector-17A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.:OA/819/2024

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) o rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 25437

**BANK OF MAHARASHTRA** 

M/s SATYARTHI TRADING CORPORATION THROUGH ITS PROPRIETOR SHRI ABHISHEK RAGHAV SON OF SHRI DHIRENDER RAGHAV (1) Defendant No. 1:- M/s Satyarthi Trading Corporation through its Proprietor Shr

Abhishek Raghav, near Pragati School, Opposite Purvanchal Bhawan, Main Pataudi Road, Kadipur, Gurugram Harvana-122001 (2) Defendant No. 2:- Shri Abhishek Raghav Son of Shri Dhirender Raghav

Proprietor M/s Satyarthi Trading Corporation, 135, Harsaru Garhi, Harsaru 46, Gurugram Haryana-122505. **SUMMONS** 

# Whereas, OA/819/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ Notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 5120584/- (Application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

1. To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; 2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets

specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application; 3. You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application

pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal:

5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business & deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 29.04.2025 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 24.02.2025. Signature of the Officer Authorised to issue summons

### PADAM COTTON YARNS LIMITED (CIN: L17112HR1997PLC033641)

REGD. OFFICE: 196, 1" Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal - 132001, Haryana

www.padamcotton.com | email: cspcyl6@gmail.com | Tel: 8383858860 NOTICE

RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS EQUITY SHARES NOTICE is hereby given that the Company has fixed Tuesday, 18" March, 2025 as the 'Record Date' for the purpose of determining the members of the Company eligible for bonus equity shares in the ratio of 2:3 i.e. 2 (Two) new fully paid-up Equity Share having face value of Rs. 10/- each for every 3 (Three) existing fully paid-up Equity Share having face value of Rs. 10/- each. ("Bonus

The Bonus Shares shall be allotted to the members of the Company whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the record date. The Bonus Shares, once allotted, shall rank pari passu in all respects with fully

paid-up equity shares of the Company as existing on the Record Dale and shall always be subject to the terms and conditions contained in the Memorandum and Articles of the Association of the Company

Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, new Bonus Shares shall be allotted in dematerialised form only. With respect to the Bonus Shares of the members holding equity shares in physical form who have not provided their demat account details to the Company, the said Bonus Shares shall be credited in dematerialised form to a new demat suspense account till they are credited to the beneficiary accounts to the respective members holding equity shares in physical form.

The above information is also available on the website of the Company (www.padamcotton.com) and on the website of the stock exchanges where the shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com).

For Padam Cotton Yarns Limited

Date : 25.02.2025 Place : Kamal

Mahendra Singh Director DIN: 07684132

S No. Description

## **B J DUPLEX BOARDS LIMITED**

CIN - L21090DL1995PLC066281

Regd. Office: H. No.-54, G/F New Rajdhani Enclave, Near MCD Park, New Delhi, 110092 Email: sbj@anandpulp.com, Website: www.bjduplexboard.com Phone: 011-42141100 / 30251171 / 41410139

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (the "SS-2") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, BJ Duplex Boards Limited ("the Company") is seeking approval from its Members via passing of Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated Thursday, February 20, 2025 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("remote e-voting") only.

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circulars Nos. 14/2020, 03/2022, 11/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020 May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively ("MCA Circulars"), the Postal Ballot Notice dated Thursday, February 20, 2025, along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company / Depositories/Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") on the cut-of date Friday, February 21, 2025, have been sent through email on Monday, February 24 2025. The facility of casting the votes by the members ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Postal Ballot Notice.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot and shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Compani www.bjduplexboard.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") at www.cseindia.com, where the Company's shares are listed.

The notice of Postal Ballot contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system will be provided by NSDL. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday February 21, 2025, may cast their vote electronically on the Special Business as set out in the Notice of Postal Ballot dated February 20, 2025, through electronic voting systems of NSDL.

In case of any queries, including issues and concerns related to remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at: 022-48867000 / 022-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., at the designated email address; evoting@nsdl.co.in.

## All the members are informed that:

Date: February 25, 2025

Place: New Delhi

- 1. The Special Business as set out in the Notice of Postal Ballot will be transacted through voting by electronic means only;
- The remote e-voting shall commence on Tuesday, February 25, 2025, at 09:00 A.M. (IST): The remote e-voting shall end on Wednesday, March 26, 2025, at 05:00 P.M. (IST); During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, February 21, 2025, may cast their vote by remote e-voting on the Postal Ballot Notice;
- Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by the NDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for
- information purposes only; The Board of Directors has appointed M/s. Parveen Rastogi and Company,
- (Membership No. ACS: A25495, C.P. No.: 26582), Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer for conducting the entire postal ballot process in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules:
- The Scrutinizer will submit its report after the conclusion of remote e-voting but not later than 2 (two) working days from the closing of remote e-voting on or before Friday, March 28, 2025;
- The result of voting will be announced by the Chairperson or by the Company Secretary of the Company or such other person as authorized by them, on receipt of report from the Scrutinizer after the conclusion of remote e-voting but not later than 2 (two) working days form the closing of remote e-voting on or before Friday, March 28, 2025. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at www.bjduplexboard.com and simultaneously be communicated to the Stock
- Exchange and to NSDL All relevant documents referred to in the Notice or in the accompanying Statement can be obtained for inspection by writing to the Company at email ID <a href="mailto:sbj@anandpulp.com">sbj@anandpulp.com</a>; on all working days till the conclusion of remote e-voting on Wednesday, March 26,

All the shareholders holding shares in physical mode are requested to convert their shares in the Demat mode. By Order of the Board

> Divya Mittal Company Secretary & Compliance Officer

Place: Agra

For B J Duplex Boards Limited



Loan Code/ Branch/ Demand Notice

# PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD.

CIN: L65910MH1984PLC032639 Registered Office: Unit No.-601,6th Floor, Piramal Amiti Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai- 400070 -T +91 22 3802 4000 Branch Office: Plot No-6, Block A., Sector-2, Noida, U.P.- 201 301

Reserve Earnest Money Outstanding

Contact Person: 1.Nikki Kumar:- 9650606340, 2. Pankaj Kashyap- 9136178689, 3. Rohan Sawant:- 9833143013

E-Auction Sale Notice-Subsequent Sale Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Piramal Capital & Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the

Property

possession, on 'As is Where is Basis', 'As is What is Basis' and 'Whatever is There is Basis', Particulars of which are given below:

Borrower(s)/Co- Borrower(s)/ Guarantor(s)	Date and Amount	Address_final	Price	Deposit (EMD) (10% of RP)	Amount (24-02-2025)
Loan Code No.: PHHLDEL04000352; Delhi (Branch), Mr. Manoj Kumar Sharma S/o Mr. Devender Kumar Sharma (Borrower), Vandana Sharma (Co Borrower 1)	Lakh Twenty Seven Thousand Six	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- Flat No A 603 Plot No 36 2 6Th Floor Super Hig Samart Ashok Cghs Ltd Sector 9 Delhi Near Himalya Public School Delhi Rohini Delhi- 110085	Rs. 2,34,10,000/- (Rs. Two Crore Thirty Four Lakh Ten Thousand Only)	Rs. 23,41,000/- (Rs. Twenty Three Lakh Forty One Thousand Only)	Rs. 3,65,64,641/- (Rs. Three Crore Sixty Five Lakh Sixty Four Thousand Six Hundred Forty One Only)
Loan Code No.: M0075901, Delhi - Pitampura (Branch), Ved Byas (Borrower), Rekha Kumari V (Co Borrower 1)	Dt. 17-08-2023, Rs. 26,16,756/- (Rs. Twenty Six Lakh Sixteen Thousand Seven Hundred Fifty Six Only)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- Property Bearing No 27, 28 And 29 Second Floor Bearing No A 4 Without Roof Right Rear Left Side Village Nangloi Jat, Village Nangloi Jat,- 110041	Rs. 22,60,000/- (Rs. Twenty Two Lakh Sixty Thousand Only)	Rs. 2,26,000/- (Rs. Two Lakh Twenty Six Thousand Only)	Rs. 31,68,805/- (Rs. Thirty One Lakh Sixty Eight Thousand Eight Hundred Five Only)
Loan Code No.: 23400003113, Agra (Branch), Lokesh Sharma (Borrower); Pankaj Sharma (Co Borrower 1) Nitin Sharma Laxmi Kumari Vandana Sharma Madhu Sharma (Guarantor 3)	Dt 26-04-2022, Rs. 36,41,786/- (Rs. Thirty Six Lakh Forty One Thousand Seven Hundred Eighty Six Only)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- H. on Plot No.491 Pachimpuri Avas Yojna, Mauja Dehtora Lohamandi Ward Agra Agra Uttar Pradesh :- 282007 Boundaries As :- North :- Other Property South :- Plot No-492 East :- Road 30 Feet Wide & Plot No-490 West :- Other Property	Rs. 82,10,000/- (Rs. Eighty Two Lakh Ten Thousand Only)	Rs. 8,21,000/-, (Rs. Eight Lakh Twenty One Thousand Only)	Rs. 51,14,931/- (Rs. Fifty One Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred Thirty One Only)
Loan Code No.: M0006043, Delhi (Branch), Amit Kumar Sharma (Borrower),	Dt 17-08-2023, Rs. 39,44,594.43/- (Rs. Thirty Nine Lakh Forty Four Thousand Five Hundred Ninety Four Only and Forty Three Paise)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- House No 267 3rd Floor Mohalla Ram Nagar Ghaziabad- 201001	Rs. 30,00,000/- (Rs. Thirty Lakh Only)	Rs. 3,00,000/- (Rs. Three Lakh Only)	Rs. 49,29,023/- (Rs. Forty Nine Lakh Twenty Nine Thousand Twenty Three Only)
Loan Code No.: M0044907 & PHLPDEL04000489, Delhi (Branch), Rakesh Pandit (Borrower), Punam Sharma (Co Borrower 1) Santosh (Co Borrower 2)		(A Exercity)	Rs. 60,80,000/- (Rs. Sixty Lakh Eighty Thousand Only)	Rs. 608000V-, (Rs. Six Lakh Eight Thousand Only)	Rs. 52,73,847/- (Rs. Fifty Two Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Forty Seven Only) & Rs. 25,56,772/- (Rs. Twenty Five Lakh Fifty Six Thousand Seven Hundred Seventy Two Only)
Loan Code No.: 25500000483, Delhi - Pitampura (Branch), Ajit Singh (Borrower), Nirmla (Co Borrower 1)	Dt 14-03-2018, Rs. 1,63,33,521/- (Rs. One Crore Sixty Three Lakh Thirty Three Thousand Five Hundred Twenty One Only)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- Khasra No 14682/13909/10842/6767 Moja Rohtak, Opposite Petrol Pump Jind By Pass Road Mc Limits Rohtak Rohtak Haryana :- 124001	Rs. 1,98,40,000/- (Rs. One Crore Ninety Eight Lakh Forty Thousand Only)	Rs. 19,84,000/- (Rs. Nineteen Lakh Eighty Four Thousand Only)	Rs. 4,58,43,249/- (Rs. Four Crore Fifty Eight lakh Forty Three Thousand Two Hundred Forty Nine Only)
Loan Code No.: 09600001402, Delhi - Pitampura (Branch), Radhey Shyam (Borrower), Rekha Singh (Co Borrower 1)	Dt: 14-06-2021, Rs. 23,13,461/- (Rs. Twenty Three Lakh Thirteen Thousand Four Hundred Sixty One Only)	All The piece and Parcel of the Property having an extent :- Property No. Rz-118, Third Floor Khasra No. 419, Kailash Puri, Village Nasir Pur, Palam Village Nasir Pur, Palam New Delhi Delhi :- 110045 Boundaries As :- North :- Gali 20 ft wide South :- Portion of plot East :- Property of other	Rs. 15,90,000/- (Rs. Fifteen Lakh Ninety Thousand Only)	Rs. 1,59,000/- (Rs. One Lakh Fifty Nine Thousand Only)	Rs. 38,79,945/- (Rs. Thirty Eight Lakh Seventy Nine Thousand Nine Hundred Forty Five Only)

DATE OF E-AUCTION: 18-03-2025, FROM 11:00 A.M. TO 01:00 P.M. (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH),

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in www.piramalfinance.com/e-Auction.html or email us on piramal.auction@piramal.com

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT TO THE BORROWER/GUARANTOR / MORTGAGOR The above mentioned Borrower/Guarantor are hereby noticed to pay the sum as mentioned in section 13(2) notice in full with accrued interest till date before the date of auction, failing which property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost from

Date: February 26, 2025 Sd/- (Authorised Officer) Place : Delhi Piramal Capital & Housing Finance Limited

### TWENTYSECOUND SALENOTICE RELIABLE FINANCE CORPN PRIVATE LIMITED (UNDER LIQUIDATION)

CIN: U74899DL1956PTC002640 (The Corporate Debtor) Reg. Off.: 106, T-10 Main Patel Road, Guruarjun Nagar, Shadi Khampur Email ID: reliablefinance.liquidation@gmail.com

Liquidator: Satvendra Sharma Liquidator Address: M-3, Block No. 51, Anupam Plaza- II First Floor, Above Axis Bank Sanjay Place, Agra, Uttar Pradesh-282002, India

Email ID: satyendrasirp@gmail.com, E-Auction Sale of Corporate Debtor under Regulation 32 of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 Date and Time of Auction: 24.03.2025 from 2:00 P.M. to 3:00 P.M.

(With unlimited extension of 5 minutes each)

NOTICE is hereby issued for sale of Assets of Corporate Debtor on standalone basis or Sale of Corporate Debtor on going concern basis under Regulation 32 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, in possession of the Liquidator, appointed vide order dated 15th November, 2022 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, Bench VI, New Delhi and to submit the expression of interest (EOI) within 14 (Fourteen) days from the date of issue of public notice i.e. 12.03.2025. The sale of Company will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Reserve Price(INR)

EMD (INR)

Bid Incremental Value

Manner of Sale

					Dia illorollicitai Talao
1.	Non-current investments except Akul Securities Pvt Ltd	Debtor on standalone basis under Regulation32(c) IIBBI	3,88,99,789.35 (Three Crore Eighty-Eight Lakh Ninety-Nine Thousand Seven Hundred Eighty-Nine Rupees and Thirty-Five Paisa Only)	38,00,000.00 (Thirty-Eight Lakh Rupees Only)	3,80,000.00 (Three Lakh Eighty Thousand Rupees Only)
2.	Inventories except shares of India Stuffyarn Ltd, Carewell Exim Ltd, Intellectual Builders Pvt Ltd and Yuvraj Exports Pvt Ltd		3,60,29,052.55 (Three Crore Sixty Lakh Twenty- Nine Thousand Fifty-Two Rupees and Fifty-Five Paisa Only)	36,00,000.00 (Thirty-Six Lakh Rupees Only)	3,60,000.00 (Three Lakh Sixty Thousand Rupees Only)
3.	Entire Company with all Assets are as per asset memorandum on the basis of going concern except shares of India Stuffyarn Ltd, Carewell Exim Ltd, Intellectual Builders Pvt Ltd, Yuvraj Exports Pvt Ltd and Akul Securities Pvt Ltd	concern pursuant to the Regulation 32(e) of the IBBI	5,27,05,252.00 (Five Crore Twenty-Seven Lakh Five Thousand Two Hundred Fifty- Two Rupees and Zero Paisa only)		5,20,000.00 (Five Lakh Twenty Thousand Rupees Only)

NON CURRENT INVESTMETS (UNQUOTED SHARES) ON STANDALONE BASIS PURSUANT TO REGULATION 32(a) OF IBBI

S.No	Particulars	No. Of Shares with face value	Reserve Price (INC)	EMD (INR)	Bid Incrementa Value
A.	Akul Securities Pvt Ltd		Sold at 11th Sale No	tice	
B.	ECHT Finance Ltd	8,72,500 shares @ 10/-	32,28,975.85/-	3,00,000.00/-	30,000.00/-
C.	Euro Asia India Corporation Pvt Ltd	4,32,300 shares @ 10/-	16,44,425.50/-	1,60,000.00/-	16,000.00/-
D.	Gunny Auto & Finance Pvt Ltd	17,33,900shares@10/-	68,31,129.66/-	6,80,000.00/-	68,000.00/-
E.	Microland Developers Pvt Ltd	1,50,000 shares @10/-	43,89,655.84/-	4,38,000.00/-	43,800.00/-
F.	NCV Securities Pvt Ltd	75,000 shares @10/-	2,82,920.06/-	28,000.00/-	2,800.00/-
G.	Paschim Finance & Chit Fund Pvt Ltd	8,00,000 shares @10/-	64,23,514.88/	6,42,000.00/	64,200.00/-
H.	Pelicon Finance & Leasing Pvt Ltd	1,96,500 shares @ 10/-	7,20,375.32/-	72,000.00/-	7,200.00/-
l.	Sterling India Capital Services Pvt Ltd	8,46,000 shares @10/-	68,53,839.17/-	6,85,000.00/-	68,500.00/-
J.	Utsav Securities Ltd	1,45,000 shares @10/-	99,97,368.58/-	9,99,000.00/	99,900.00/-
K.	VIP Leasing and Finance Pvt Ltd	4,00,000 shares @10/-	13,57,772.81/-	1,35,000.00/	13,500.00/-
L.	Virgin Capital Services Pvt Ltd	4,05,000 shares @10/-	14,10,312.70/-	1,41,000.00/	14,100.00/-
		Total	4,31,40,290.36/-	42,80,000.00/-	

5.	INVENTORIES ON STAND	ALONE BASIS PURSUANT PROCESS REGUL		of IBBI (Liquidat	ION)
S N	o. Particulars	No. of shares With Face Value	Reserve Price (INR)	EMD (INR)	Bid IncreMental Value
	-1		Quoted Shares	11.0	
A.	India Stuffyarn Ltd		Sold at 8th auction		
B.	Kappac Pharma Ltd	13,500 shares @10/-	3,77,068.75	37,000.00	3,700.00
C.	Reliance Power Ltd	27 shares @10/-	868.48	80.00	8.00
D.	Tarini Enterprises Ltd	5,040 shares @10/-	2,98,963.35	29,000.00	2,900.00
		Unquoted Shares			
E.	Aquarious Fincap & Credit Pvt Ltd	1,44,000 shares @10/-	1,95,43,647.37	19,54,000.00	1,95,400.00
F.	Blue bell Finance Limited	300 shares @10/-	15,273.60	1,500.00	150.00
G.	Carewell Exim Pvt Ltd		Sold at 8th auction	*	<i>I</i> I.
H.	Finage Leasing & Finance India Limited	1,50,000 shares @10/-	11,85,058.17	1,18,000.00	11,800.00
T.	Gracious Portfolio Pvt Ltd	30,000 shares @10/-	3,32,742.85	33,000.00	3,300.00
J.	Hibiscus Holdings Pvt Ltd	4,845 shares @10/-	4,91,024.61	49,000.00	4,900.00
K.	Homburg Securities Pvt Ltd	25,000 shares @10/-	59,574.98	5,900.00	590.00
L.	Intellectual Builders Pvt Ltd		Sold at 8th auction		
M.	Mekaster Finlease Ltd	16,00,000 shares@10/-	72,91,788.19	7,29,000.00	72,900.00
N.	Shanta Agencies Pvt Ltd	8,000 shares @10/-	20,33,793.32	2,00,000.00	20,000.00
0.	Star Infovision Pvt Ltd	7,00,000 shares @10/-	55,47,376.96	5,50,000.00	55,000.00
P.	Sterling India Capital Services Pvt Ltd	1,09,600 shares @10/-	4,12,578.95	40,000.00	4,000.00
Q.	Twinkle Mercantile & Credits Pvt Ltd	9,608 shares @10/-	6,65,343.20	60,000.00	6,000.00
R.	Wonder Trading Private Ltd	6,75,000 shares @10	23,13,163.71	2,30,000.00	23,000.00
S.	Yuvraj Exports Pvt Ltd		Sold at 8th auction		
		Total	4,05,68,266.48/-	40,36,480.00/-	

# Terms and Condition of the E-auction are as under:

- In case any person bids for serial No. 3 i.e. entire company with all Assets as per Asset Memorandum on going concern basis then bid for serial No. 1, 2, 4 and 5 will be automatically disqualified.
- In case any person bids for serial No. 1 then bid for serial No. 4 will be automatically disqualified. In case any person bids for serial No. 2 then bidder for serial No. 5 will be automatically disqualified. .E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provide
- M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger). Upon receipt of EOI from the prospective bidder, the liquidator shall declare the qualified bidder on 15.03.2025
- The qualified bidder may make inspection or due diligence of assets under auction latest by 22.03.2025 and then, will be required to deposit the The prospective bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the exter
- applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited. Liquidator may extend the date of auction if circumstances warrant in the interest of the Corporate Debtor.
- The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form General Terms and Conditions of online auction sale may be asked from the liquidator by writing to the following emai reliablefinance.liquidation@gmail.com
- 10. Payment of balance sale consideration shall be made within 180 days of such demand and payments made after 30 days shall attract interes
- For further information, the intending bidder may contact undersigned on any working day from Monday to Saturday between 11.00 AM to 5.00 PM on or before 22.03.2025

Satyendra Sharma, Liquidator Date: 25.02.2025 Reliable Finance Corpn Private Limited (Under Liquidation)



**CRM** - AKASH - 9990623685

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. Branch Office: F8, First Floor, Mahalaxmi Metro Tower,

Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, 201019

Email: auction@hindujahousingfinance.com

**ALM - ARUN MOHAN SHARMA** 

**CRM** - ANUJ DIXIT - 8447376183 CLM - GAURAV RATHORE - Mob. No. 9999243349

**CLM** - ANKIT GARG - Mob. No. 9654060881 **APPENDIX- IV-A** [Refer proviso to rule 8 (6)] **SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY** 

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules").

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below-described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited (Secured Creditor) having its Corporate Office at 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidapet, Chennai – 600015 and one of its Office at: F8, First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, 201019, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com Sr Loan Account Number and Demand Notice u/s 13(2) Date and Type Reserve Price Date/Time of

Sr. No.	Name of Borrower(s) /	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Date and Type of Possession	Reserve Price Earnest Money	Date/Time of E-Auction
	Co-Borrower(s) /Guarantor(s)			Deposit (EMD) Bid Increase Amount	
1.	DL/GRN/ALPH/A000000031 MAYA DEVI ASHOK KUMAR	27-06-2024 And <b>Rs. 1282846.00</b> as on 17-06-2024	28-12-2024 Symbolic Possession	Rs. 15,34,000/- Rs. 1,53,400/- Rs. 10,000/-	<b>07-04-2025</b> 11:00 hrs -13:00 hrs.
	Description of the Immovable Property/ S PLOTNO F-19, SLF VED VIHAR LONI GHAZ		Date	tion Last Date : 04-04-20 e of Inspection of the pr 2-04-2024, 14:00 hrs -17:0	operty :
2.	DL/GRN/ALPH/A000000222 SAPNA SAPNA ABHISHEK	27-08-2024 And <b>Rs. 1119222.00</b> as on 19-08-2024	30-12-2024 Symbolic Possession	Rs. 12,09,000/- Rs. 1,20,900/- Rs. 10,000/-	<b>07-04-2025</b> 11:00 hrs -13:00 hrs.
	Description of the Immovable Property/ Se Ground Floor, Rear Side, area measuring 30 area measuring 200 Sq. Yards, out of Khasra Ved Vihar Situated at Hadbast Village Sadulla Ghaziabad U.PEAST Property No-121, WES GF-1 & 2/Road, SOUTH-Other Property	6 Sq. Ft., Built-on Plot No. A-120, a No. 392 & 393, in Block-A, "SLF abad, Pargana & Tehsil Loni, Distt.	Date	tion Last Date : 04-04-20 e of Inspection of the pr 2-04-2024, 14:00 hrs -17:0	operty :
3.	DL/GRN/OMCN/A00000113 DHANVEER DHANVEER DURGA DIWAKAR	20-08-2024 And <b>Rs. 999512.00</b> as on 19-08-2024	20-12-2024 Symbolic Possession	Rs. 10,16,000/- Rs. 1,01,600/- Rs. 10,000/-	<b>07-04-2025</b> 11:00 hrs -13:00 hrs.
	Description of the Immovable Property/ Se Floor (Rear Left Side) Area Measuring 342 S Area Measuring 183.33 Sq. Yards i.e, 153.28 situated at Rail Vihar Sehkari Awas Samiti Lon	g Ft. Built Up Plot No-a-98, Land sq. Meters, Part of Khasra no-347	Date	tion Last Date : 04-04-20 e of Inspection of the pr 2-04-2024, 14:00 hrs -17:0	operty:
4	DL/GRN/OMCN/A000000123 PRAMOD SHARMA SUSHMA SHARMA	18-06-2024 And <b>Rs. 1100503.00</b> as on 17-06-2024	19-10-2024 Symbolic Possession	Rs. 11,10,000/- Rs. 1,11,000/- Rs. 10,000/-	<b>07-04-2025</b> 11:00 hrs -13:00 hrs.
	Description of the Immovable Property/ S LIG GROUND FLOOR (RIGHT SIDE) AERA 29.45 SQ. METER BUILT ON RESIDENTIAL 100 SQ. YARDSie, 83.67 SQ METER SITUATED AT RESIDENTIAL COLONY SLEV	MEASURING 317 SQ. FTi.e., PLOT D-124, AREA MEASURING ROUT OF KHASRA NO-352/2	Date	tion Last Date : 04-04-20 e of Inspection of the pr 2-04-2024, 14:00 hrs -17:0	operty:
5.	DL/GRN/PRCK/A000000111 SANJAY SHARMA NISHA SHARMA	30-09-2024 And <b>Rs. 1056325.00</b> as on 28-09-2024	10-01-2025 Symbolic Possession	Rs. 10,86,000/- Rs. 1,08,600/- Rs. 10,000/-	<b>07-04-2025</b> 11:00 hrs -13:00 hrs.
	Description of the Immovable Property/ (Rear RHS) on 1st Floor without roof rights at Plot No. B 73 area measuring 200 sqyds vide Village Sadullabad Rail Vihar Sahkari Awas S	rea measuring 360 sqft Built Upon part of Khasra No. 224 situated at	Date	tion Last Date : 04-04-20 e of Inspection of the pr 2-04-2024, 14:00 hrs -17:0	operty:

**GULISTA** Possession Rs. 10,000/-Description of the Immovable Property/ Secured Asset: A Residential Flat EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs. No. G-3, (I.i.g), On Ground Floor, Back Side, Having Covered Area 400 Sq. Ft., Date of Inspection of the property: Without Roof Rights, Built On Freehold Residential Plot No. C-95, Plot 02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs Measuring Area 173.33 Sq. Yards, Situated At Dlf Dilshad Extension-ii, Situated n The Area Of Village: Brahampura @ Bhopura, Tehsil And District: Ghaziabad, DL/GRN/ALPH/A000000022. 03-05-2024 30-12-2024 Rs. 12.68.000/-07-04-2025 And Rs 987178 00 11:00 hrs CO/CPC/CPOF/A000000617 Rs. 1,26,800/-Symbolic as on 30-04-2024 -13:00 hrs. SUNIL PISHORI LAL, SHALINI KALRA Possession Rs. 10.000/-Description of the Immovable Property/Secured Asset: Falt No UGF-08. On EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs.

11-11-2024

Symbolic

20-12-2024

Symbolic

31-12-2024

Symbolic

Possession

Rs. 13,05,000/-

Rs. 1,30,500/-

Date of Inspection of the property:

02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs

02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs

EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs.

Date of Inspection of the property:

02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs

Rs. 28,19,000/-

Rs. 2,81,900/-

Rs. 10,000/-

EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs.

Date of Inspection of the property:

Rs. 19,91,000/-

Rs. 1.99.100/-

07-04-2025

11:00 hrs

-13:00 hrs.

16-07-2024

And Rs. 1107928.00

as on 12-07-2024

/illage Sadullabad Pargana Loni Ghaziabad U.P. DL/GRN/OMCN/A000000091 20-08-2024 20-12-2024 Rs. 11,46,000/-OM PRAKASH And Rs. 984445.00 Rs. 1,14,600/-Symbolic as on 19-08-2024 **POONAM SINGH** Possession Rs. 10,000/-Description of the Immovable Property/ Secured Asset: Flat No-UGF-04 (Rear EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs. RIHS), area measuring 360 sq. ft, built on Plot No. A-88. land area measuring 200 Sq. Yards, i.e. 167.22 Sq. Meters. Part of Khasra No. 348, Situated at Rail Date of Inspection of the property:

17-08-2024

And Rs. 1571709.00 SYED MOHAMMAD ADNAN as on 14-08-2024 Mr. SYED MOHAMMAD IMRAN Possession Description of the Immovable Property/ Secured Asset: Flat No.SF-03 Second Floor (Front Left Side), area measuring 576 sq. ft, built on Plot bearing No. B-81, area measuring 260 Sq. Yards, i.e. 217.38 Sq. Meters, Part of Khasra No. 218. Situated at Rail Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd.. in the area of village

Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd., Village Sadullabad, Pargana Loni

DL/GRN/SNPR/A000000111

District Ghaziabad, Uttar Pradesh. EAST-Flat No. FF-03, WEST-Plot No. B-72 NORTH-Entry of Flat/Flat No. FF-01/Road 25ft Wide, SOUTH- Plot No. B-46

Upper Ground Floor Area Measuring 450 Sq. Ft Built On Residential Plot No-

125 & 126, Aear Measuring 200 Sq. Yds, I.e, 167.22 Sq. Meter out of Khasra

No.355, Situated At Block-D, Residential Colony "Sani Nagar (Pushp Vihar) in

DL/DEL/PAND/A000001033

**ARIF ARIF** 

Sadullabad, Pargana-Loni. Tehsil & District Ghaziabad DL/SDR/SDRA/A000000592 18-06-2024 MANOJ KUMAR SHARMA And **Rs. 2641413.00** as on 17-06-2024 Mr. MOHIT MOHIT Description of the Immovable Property/ Secured Asset: 3rd Floor with roof rights area measuring 75 sqyds Built Upon Plot No-1/5971 area measuring 75

sqyds part of Khasra No-3429/2695/13, 2691/12 and 11/12 situated at Village Chandrawali alias Shahdara in the abadi of Kabool Nagar Shahdara - 110032. DL/SDR/SDRA/A000000991 17-08-2024 And Rs. 2075051.00 **NIKHIL SHARMA** as on 14-08-2024 NARENDER SHARMA Description of the Immovable Property/ Secured Asset: Plot No. A-148 area neasuring 50 sqyds part of Khasra No. 1112/34 situated at Village Gokalpur in the Abadi of Johirpul Extension, Shahdara.

EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs. Date of Inspection of the property: 02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs 07-04-2025 30-12-2024 Rs. 39,05,000/-11:00 hrs Rs. 3,90,500/-Symbolic -13:00 hrs. Possession Rs. 10.000/-

02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs 07-04-2025 DL/DEL/DLHI/A000000940 20-11-2023 17-04-2024 Rs. 52.71.000/ And Rs. 3730582.00 DL/DEL/DLHI/A000001385 Rs. 5,27,100/-11:00 hrs Symbolic as on 17-10-2023 -13:00 hrs. Shekhar Tomar, Ritanjali Tomar, Possession Rs. 10,000/-M/s Racsann Technologies Pvt Ltd. Description of the Immovable Property/ Secured Asset: Entire Built up First EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs. Floor upto ceiling level, without roof rights, land area measuring approx. 125 Sq. Date of Inspection of the property: Yards i.e. 104.51 Sq. Meters, Property bearing no. R-72, Built up on Plot no. 7, out 02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs of khasra No. 584/202/3, Situated in the area of Village Khichripur in the abadi of Gali no 4, near Shiv Mandir East Vinod Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi-110091

07-04-2025 DL/KPR/JAIT/A000000360 03-09-2024 24-12-2024 Rs. 23,40,000/-And Rs. 2089899.00 11:00 hrs SUHILA DEVI Symbolic Rs. 2,34,000/as on 03-09-2024 -13:00 hrs. ANKIT YADAV Possession Rs. 10,000/-Description of the Immovable Property/ Secured Asset: Flat No-TF-1, Front EMD Deposition Last Date: 04-04-2024, Till 17:00 hrs. Rhs Third Floor With Roof Right, Area Mesuring 80 Sq. Yard .i..e, 66.89 Sq Mtr, Date of Inspection of the property: Built On Residential Vacant Plot Of Land Area Measuring 229, Sq Yards, 191,46 02-04-2024, 14:00 hrs -17:00 hrs Sq Meters Bearing Khasra No-795/2 Situated At Village Brahampur Urf Bhopura Paragana Loni Ghaizabad UP. Mode of Payment: - Payment shall be made by demand draft in favour of Hinduja Housing Finance Limited payable at Ghaziabad.

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE: - 1. The Property is being sold on "As is Where is", "As is What is", "Whatever there

is" and "Without Recourse" basis. As such sale is without any kind of warranties & indemnities. 2. Particulars of the property/assets (viz. extent &

measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of the information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, mis-statement or omission. Actual extant & dimensions may differ. 3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries/due diligence about the title & present condition of the property/assets and claims/dues affecting the property before submission of bids. 4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website auction@hinduiahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com/ Or Auction provided by the service provider C1 India PVT LTD, who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform. 5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor/service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, own system crash, power failure etc. 6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider C1 INDIA PVT.LTD., Plot No.68 3rd Floor, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122003, (Contact Person: Mithalesh Kumar, Phone No. 7080804466, Email: delhi@c1india.com, Support Mobile Number:-**7291981124/1125/1126). 7.** For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider. 8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) i.e. 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft in favor of "Hinduja Housing Finance Limited. 9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer at Hinduja Housing Finance Limited, at F8, First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, 201019. 10. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale in the Loan Account Number (as mentioned above) for the property (as mentioned above). After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorized Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider C1 India PVT LTD to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding/auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice. 11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension. 12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone. 13. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him by E-Mail both to the Authorized Officer on his mail id arunmohan.sharma@hindujahousingfinance.com and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings. 14. The successful bidder shall immediately i.e. on the same day or not later than next working day, as the case may be, pay a deposit of twenty five per cent, of the amount of the sale price, which is inclusive of earnest money deposited, if any, to the Authorized Officer conducting the sale. The balance amount of purchase price payable shall be on or before fifteenth day of confirmation of sale of the immovable property. 15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder/auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale. 16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount. 17. The Successful Bidder shall pay applicable TDS (out of Sale proceeds) and submit TDS certificate to the Authorised officer. 18. Municipal/Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property. 19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price/bid amount and fumishing the necessary proof in respect of payment of all taxes/charges. 20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser. 21. The Authorized officer may postpone/cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider. 22. The decision of the Authorized Officer is final, binding and unquestionable. 23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them. 24. For further details and queries, please contact Authorized Officer,

loan account pursuant to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above-mentioned date/place. Date: 26.02.2025, Place: Delhi-NCR

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Special Instructions/Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Hinduja Housing Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

ARUN MOHAN SHARMA, Mobile No.8800898999 at branch office at Hinduja Housing Finance Limited, at F8, First Floor, Mahalaxmi Metro

Tower, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, 201010. 25. This is also 30 (Thirty) days' notice to the Borrower/Mortgagor/Guarantors of the above said

New Delhi

Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00737/2018-19/12260 financialexp.epapr.in

### PADAM COTTON YARNS LIMITED

(CIN: L17112HR1997PLC033641) REGD. OFFICE: 196, 1" Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road,

Karnal - 132001, Haryana www.padamcotton.com | email: cspcyl6@gmail.com | Tel: 8383858860

### NOTICE RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS EQUITY SHARES

NOTICE is hereby given that the Company has fixed Tuesday, 18" March, 2025 as the 'Record Date' for the purpose of determining the members of the Company eligible for bonus equity shares in the ratio of 2:3 i.e. 2 (Two) new fully paid-up Equity Share having face value of Rs. 10/- each for every 3 (Three) existing fully paid-up Equity Share having face value of Rs. 10/- each. ("Bonus

The Bonus Shares shall be allotted to the members of the Company whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the record date.

The Bonus Shares, once allotted, shall rank pari passu in all respects with fully paid-up equity shares of the Company as existing on the Record Dale and shall always be subject to the terms and conditions contained in the Memorandum and Articles of the Association of the Company.

Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, new Bonus Shares shall be allotted in dematerialised form only. With respect to the Bonus Shares of the members holding equity shares in physical form who have not provided their demat account details to the Company, the said Bonus Shares shall be credited in dematerialised form to a new demat suspense account till they are credited to the beneficiary accounts to the respective members holding equity shares in

physical form. The above information is also available on the website of the Company (www.padamcotton.com) and on the website of the stock exchanges where the shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com).

For Padam Cotton Yarns Limited

Mahendra Singh Director DIN: 07684132



Date : 25.02.2025

Place : Kamal

समसामयिक अध्ययन केंद्र प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा आयोजित

के. एम. मुंशी एंड द मेकिंग ऑफ नेश्नलिस्ट कॉन्स्टिटूशन

आप सादर आमंत्रित हैं।

वक्ता : सज्जन कमार फेलो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय

**दिनांक**: 10 फरवरी, 2025 समय: अपराह्न 3:00 बजे

स्थलः संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय तीन मुर्ति भवन

> नई दिल्ली-110011 सभी का स्वांगत है।

अपना नाम जोड़ने के लिए कृपया हमें ईमेल करें: ccs2nmml@gmail.com

# केन्द्रीय विद्यालय

एन.टी.पी.सी., बदरपुर, नई दिल्ली-44 वेबसाइट—https://badarpurntpc.kvs.ac.in. ईमेल—kvntpcbadarpur@kvsrodelhi.in

CBC 09142/12/0036/2425

र्सीवदा शिक्षकों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू (2025-26) सत्र 2025-26 के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दर्शायी गई तिथि एवं समय पर विद्यालय में निम्नलिखित पदो पर वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार तिथि/ पदनाम

स.		पंजीकरण समय
1.	प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, नर्स, परामर्शदाता, योग कोच, संगीत कोच, विशेष शिक्षक।	
2.	पीजीटीः भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य। टीजीटीः विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत।	समय- प्रातः ८:३० बजे

- बायो-डेटा फॉर्म मौके पर ही दिए जाएंगे या विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी का एक सेट लाना होगा योग्यता और पारिश्रमिक के बारे में विवरण केवीएस मानदंडों के अनुसार होगा और वेबसाइट पर देखा जा सकता है:
- www.badarpurntpc.kvs.ac.in / www.kvsangathan.nic.in
- साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा संविदा शिक्षकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष है। उक्त पद पर सेवाएँ अंशकालीन सर्विदा अनुबंधन के आधार पर ही ली जायेंगी तथा आवेदक भविष्य में किसी भी प्रकार से नियमित नियुक्ति
- अथवा वरीयता का दावा केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर में नहीं कर सकते है। रिक्त पद भर जाने, अवकाश से शिक्षक / शिक्षिका के लौटने पर अथवा अन्य किसी कारण के बिना बताएं सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है
- निर्धारित समय के बाद किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार हेतु पंजीयन नहीं किया जाएगा कंप्यूटर का ज्ञान सभी पदों के लिए वांछनीय है। प्राचार्य

# केन्द्रीय विद्यालय

### एन.टी.पी.सी., बदरपुर, नई दिल्ली-44 वेबसाइट—https://badarpurntpc.kvs.ac.in, ईमेल-kvntpcbadarpur@kvsrodelhi.ir वर्ष 2025-26 फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन

केन्द्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर नई दिल्ली में वितीय वर्ष 2025—26 में निम्नलिखित कार्य / सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मो द्वारा पंजीकरण हेतु मुहरबंद आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते

सफाई सामग्री, वाटर कुलर व आर.ओ. की ए.एम.सी, अग्नि सुरक्षा यंत्र / रिफीलिंग, केंटीन, AMC for E-Classrooms (Interactive boards, visulizers, LCD Projector), फर्निचर (लकड़ी, स्टील एवं प्लास्टिक), ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एयर कंडीशनर, वैज्ञानिक उपकरण (उपभोज्य / गैर उपभोज्य), दृश्य श्रवण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, फोटोकोपीयर मशीन, फोटोकॉपी पर पेज 🖊 मशीन किराया, खेल कूद सामग्री, टेंट हाउस एवं मंच साज सज्जा, परिवहन (transportation), विद्यालय में बिजली के कार्य हेतु AMC, बिजली का सामान, कम्प्युटर / सीसीटीवी और इसकी AMC, तथा विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण सामग्री (Maintenance & Repair), Taxi/ Buses for hiring, केंटीन, Student Medical Checkup, FLEX Board/Banner printing writing sun board, हेत् इच्छुक फर्म अपना आवेदन दिनांक 20.03.2025 तक आवश्यक दस्तावेज तथा पैन नंबर, जीएसटी, सर्विस टेक्स, लाइसेंस FSSI सर्टिफिकेट इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रति पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) के साथ संलग्न कर पंजीकृत डाक अथवा विद्यालय में आकर आवेदन करें। लिफाफे के ऊपर "फर्म पंजीकरण हेतु" एवं संबन्धित कार्य का नाम लिखा होना आवश्यक

नोटः– 1.पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) विद्यालय से प्राप्त अथवा विद्यालय की वैबसाइट से डाउन्लोड किया जा सकता हैं। 2: वर्तमान सरकारी नियमानुसार GEM से खरीद को प्राथमिकता दी जाती है फिर भी विशेष परिस्थिति में फर्म रजिस्टेशन की मांग है। प्राचार्य

## केनरा बैंक Canara Bank 📣

वजीरपुर शाखा - ०३८७, सम्पर्क : ९९७७१८००३८७

# ऑनलाइन स्वर्ण नीलामी सूचना

जबिक केनरा बैंक, वजीरपुर मेन के प्राधिकृत अधिकारी ने बिक्री सूचना(एं) जारी की थी, जिसमें कर्जदार से उसके द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋण में बकाया राशि चकाने की मांग की गई थी। कर्जदार बकाया राशि चकाने में असफल रहा है, एतदद्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वर्ण आभुषणों की ऑनलाइन नीलामी पूर्णतया "जैसा है जो है **आधार", एवं "जो भी है वहां है आधार" तथा "कोई** उपाय नहीं आधार" पर आयोजित की जाएगी। नीलामी दिनांक 06-03-2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

Ì	क्र. सं.	कर्जदार — एलएएन	सकल भार एवं शुद्ध भार	निरीक्षण एवं ईएमडी की तिथि	ईएमडी खाता विवरण
	1.	कोमल कंवर 125006396262	105.30 ग्राम एवं 96.00 ग्राम	04-03-2025 ₹5. 25,000/-	खाता : 209272434 नाम : केनरा बैंक आईएफएससी : CNRB0000387
۱	अधिव	। क जानकारी के लिए	L कृपया 6352634523 ३	अथवा 9023724780 पर स	। म्पर्क करें। विस्तृत नियम एवं शर्तों

के लिए https://egold.auctiontiger.net देखें।

का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त सभी का पता: 1-सीपी-04, निकट पुलिस चौकी और तरंग, चैम्बर दिल्ली रोड,

और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

2. प्रमोद कुमार सैन (आवेदक)

3. आश्विन मोदी (सह–आवेदक)

HE01MRU00000039960)

मेरठ, उत्तर प्रदेश—25000<sup>,</sup>

2. राहुल मलिक (आवेदक)

3. राहुल मलिक (आवेदक)

प्रदेश-250001

गिरीश तोमर (सह—आवेदक)

गिरीश तोमर (सह—आवेदक)

तिथि : 24-02-2025 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

auction/ के माध्यम से की जाएगी।

क्षतिग्रस्त स्थिति में

वस्तुओं का स्क्रैप

क्षतिग्रस्त स्थिति में

वस्तुओं का स्क्रैप

क्षतिग्रस्त स्थिति में

वस्तओं का स्क्रैप

निरीक्षण की तिथि और समय

ई-नीलामी की तिथि और समय

उच्चतम बोलीदाता की घोषणा

सफल बोलीदाता की घोषणा

सकते हैं।

दिनांक: 25 फरवरी, 2025

स्थानः नई दिल्ली

<sup>े</sup>नोट : \*कर यथाप्रयोज्य

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि

आवेदन, पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

आस्ति

लॉट नं.

लॉट नं.

लॉट नं.

मंजु (सह—आवेदक)

आवेदक का नाम एवं पता

तथा ऋण खाता संख्या

4. मैसर्स प्रमोद मोदी जी ऐंड सन्स, इसके स्वामी श्री प्रमोद कुमार सैन के माध्यम से (सह-आवेदक)

51, सीएच. भीम सिंह नगर, डेंटल रोड, कंकर खेड़ा

445, गली नंबर 2, निकट पोस्ट ऑफिस मंगला पुरी

51, सीएच. भीम सिंह नगर, डेंटल रोड, कंकर खेडा, मेरठ, उत्तर

खाता नंबर 254, ग्राम और पोस्ट मुकंदपुर, ब्लॉक बाधरा–251306

खाता नंबर 254, ग्राम और पोस्ट मुकंदपुर, ब्लॉक बाधरा–251306

विवरण

(क) इन्वेंटरी - कपड़े, सहायक

उपकरण, जूते और विविध स्क्रैप या

(ख) पीपीई - फर्नीचर / फिक्सचर,

इलेक्ट्रिकल्स, उपयोगिताएँ और अन्य

(क) इन्वेंटरी - कपड़े, सहायक

उपकरण, जूते और विविध स्क्रैप या

(ख) पीपीई - फर्नीचर / फिक्सचर,

इलेक्ट्रिकल्स, उपयोगिताएँ और अन्य

(क) इन्वेंटरी - कपड़े, सहायक

उपकरण, जूते और विविध स्क्रैप या

(ख) पीपीई - फर्नीचर / फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल्स, उपयोगिताएँ और अन्य

51, सीएच. भीम सिंह नगर, डेंटल रोड, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर

51, सीएच. भीम सिंह नगर, डेंटल रोड, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

**6. आरजी पोल्ट्री फार्म्स,** इसके पार्टनर्स राहुल मलिक तथा गिरीश तोमर के माध्यम से (सह—आवेदक)

**7. आरजी पोल्ट्री फार्म्स,** इसके पार्टनर्स राहल मलिक तथा गिरीश तोमर के माध्यम से (सह–आवेदक)

**8. उषा देवी (सह–आवेदक**) 51, सीएच. भीम सिंह नगर, डेंटल रोड, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन में)

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय तल, पयुचर ग्रुप कार्यालय, सोबो ब्रांड फैक्ट्री, पंडित मदन मोहन मालवीय मार्ग,

क्रॉस रोड हाजी अली, ताड़देव, मुंबई 400034

ईमेल आईडी - frl.eauction@gmail.com

ई-नीलामी - आईबीसी, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री

नीलामी की तिथि और समय - 13 मार्च, 2025

दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

फ्यचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों की बिक्री जो परिसमापन प्रक्रिया विनियमन के विनियमन 33 के साथ पठित आईबीसी 2016 की धारा 35(एफ) के तहत परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है।ई-नीलामी ''जहां है, जैसा है और आश्रय रहित'' आधार पर आयोजित

यह बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता राइट2वोट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड - राइट2वोट के माध्यम से वेबसाइट https://right2vote.in/online-

स्थान

उत्तर (राजस्थान.

तथा उ.प्र. में)

मध्य-पूर्व

( छत्तीसगढ, मध्य

प्रदेश, ओडिशा में)

दक्षिण ( आन्ध्र

प्रदेश,

कर्नाटक, केरल

तथा तमिलनाडु

में)

25 फरवरी, 2025 से 3 मार्च, 2025

4 मार्च, 2025 से 8 मार्च, 2025

10 मार्च, 2025

से बढ जाएगा)

14 मार्च, 2025

17 मार्च, 2025

1. ई-नीलामी बिक्री केवल 'जहां है, जैसा है', 'जो भी है यही है' और 'आश्रय रहित' आधार पर आयोजित की

2. इच्छुक बोलीदाताओं को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (परिसमापन के तहत) खाता संख्याः 16020110000388 बैंक

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोली लगाने से पहले बोली फॉर्म और अन्य दस्तावेज वेबसाइट

4. ई-नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए ईमेल frl.eauction@gmail.com या परिसमापक से उनके

ई-मेल sanjay@sgaindia.in पर संपर्क करें। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सभी फोन पूछताछ

निर्धारित समय दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच की जाए ताँकि उपलब्धता और कुशल सहायता

सुनिश्चित हो सके। वैकल्पिक रूप से, आप 9540016852 पर व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी संपर्क कर

ऑफ इंडिया, स्पेशल एसेट रिकवरी मैनेजमेंट मुंबई-400038 और आईएफएससी कोडः BKID0000154 के

ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोलीदाता आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर बोली नहीं लगा सकते हैं।

यानी https://right2vote.in/online-auction/ पर अपलोड किए गये

पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करनी होगी।

frl.eauction@gmail.com पर निवेदन भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।

जाएगी और इस प्रकार, ई-नीलामी बिक्री किसी भी प्रकार की छूट, वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना होगी। यह

मात्रा

लम्पसम

ऋण खाता सं. HE01HPU00000079393)

1. प्रमोद कुमार सैन जयनंद सैन (आवेदक)

माधव पुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002

1. राहल मलिक मोहर सिंह (आवेदक)

ऋण खाता सं. HE01MRU00000036781,

में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

हस्ता./- प्रबंधक, केनरा बैंक

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

भारत. शाखा कार्यालय: प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पुसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जे में ली गई

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : कॉमर्शियल प्लॉट नंबर

1सीपी-4, स्थित : माधवपुरम योजना नंबर 10, परिमाप 191.40

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय मकान, नगर निगम

नंबर 51, प्लॉट नंबर 9 एवं 10 पर निर्मित, परिमाप 307.85 वर्ग

प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

आरक्षित

मूल्य

2,07,57,711

2,27,70,169

5,79,07,741

(यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो

समापन समय स्वचालित रूप से प्रत्येक अवसर पर 5 मिनट के लिए असीमित रूप

ईएमडी

20,76,000

22,78,000

57,90,775

गज यानी 257.39 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 237/2, स्थित : 🎖 📙

सीएच. भीम सिंह नगर, राजस्व ग्राम दांतल, परगना, तहसील 🛦 🎏

Chola कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन

नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एँ) कालम (सी)

में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी

ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई)

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और

संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्ची सहित

(डी)

1,04,51,859, -12-2024 7

वर्ग मीटर, मेरठ

एवं जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश

सूचना तिथि

콰킄

(सी)

# केनरा वैक Canara Bank 📣 वजीरपुर शाखा - ०३८७, सम्पर्क : ९९७७ १८०० ३८७

जबिक केनरा बैंक, वजीरपुर मेन के प्राधिकृत अधिकारी ने बिक्री सूचना(एं) जारी की थी, जिसमें कर्जदार र उसके द्वारा लिए गए स्वर्ण ऋण में बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहा है, एतदद्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वर्ण आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी पूर्णतया "जैसा है जो है आधार", एवं "जो भी है वहां है आधार" तथ "कोई उपाय नहीं आधार" पर आयोजित की जाएगी। नीलामी दिनांक 06—03—2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी।

ऑनलाइन स्वर्ण नीलामी सूचना

क्र. सं 1.	कर्जदार — एलएएन साहिल कंवर	सकल भार एवं शुद्ध भार 91.82 ग्राम एवं 85.00 ग्राम	निरीक्षण एवं ईएमडी की तिथि 04-03-2025 रू. 25,000/-	ईएमडी खाता विवरण खाता : 209272434 नाम : केनरा बैंक आईएफएससी : CNRB0000387
	125006396262			91544411 · CNRB0000387
अधिव		कृपया <b>6352634523</b> उ	 अथवा 9023724780 पर स	म्पर्क करें। विस्तृत नियम एवं शर्तो

(एफ)

हस्ता./- प्रबंधक, केनरा बैंक

## THE YAMUNA SYNDICATE LIMITED

Registered Office: Radaur Road, Yamunanagar – 135001, Haryana CIN: L24101HR1954PLC001837, Ph.: +91-1732-255479, **E-mail:** companysecretary@yamunasyndicate.com Website: www.yamunasyndicate.com

### **NOTICE FOR LOSS OF SHARES** Notice is hereby given that following share Certificate(s) issued by company is/are stated to be

holder(s) thereof have applied to company for issue of duplicate share certificate(s) Distinctive No. No. of Name of shareholder(s)/ Folio No. No. : From to Shares 8023 234391 to 234410 20 Joginder Kumar Chowdhery jointly with Reena Chowdhery Folio: 20147

lost or misplaced or stolen and the registered holder(s) / the legal heir(s) of the Registered

Any Person(s) having any claim in respect of these share certificate(s) should write to the Company at the address given above within 15 days from the date of this publication, otherwise the Company will proceed to issue duplicate share certificates. The Public is hereby warned against purchasing/dealing in any way with the above Share Certificates. For The Yamuna Syndicate Limited Place: Yamunanagar-135 001

(Ashish Kumar) Company Secretary Date: 25th February, 2025

C Piramal

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639 पंजीकत कार्यालयः यनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, दूरभाष : +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 01 तथा 09, भूतल, जीडी-आईटीएल नॉर्थ एक्स टॉवर, प्लॉट न, ए-9, नेताजी सभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034 तथा प्लॉट न, 6, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, सेक्टर 2, नोएडा-201301

कब्जा सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पीरामल कैपिटल एण्ड** हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक गण्डा है तथा आप जनता को प्रतित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने उक्त प्रतिभित्त हित प्रवर्त्तन नियमावली २००२ के नियम 8 के साथ प्रतित धारा 13 की उप-है कि वे यहां नीचे शे के लिए **पीरामल** 

कर धार वरि	र लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रति रा (८) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट र्णेत सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथ	(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्ध १भूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय ए की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता के मा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्ल मिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिर्ग	य के संदर्भ में अधिनियम की धारा गे एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि याज के साथ नीचे वर्णित राशि के	ं 13 की उ ह वे यहां न
क्र. सं.	कर्जदार( रों )∕जमानती( यों ) के नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा क की तिशि
10	(ऋण कोड संख्या-27900001491), (ग्रेटर नोएडा-शाखा), हरीश कुमार गोयल (कर्जदार) /मोनिका गुप्ता (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- डीडीए जनता फ्लैट नंबर -281 ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक डी पॉकेट 11 जसोला नई दिल्ली:- 110025। उत्तरः उत्तर-पश्चिम- प्रवेश द्वार, पश्चिमः दक्षिण-पश्चिम- फ्लैट नंबर 285, पूर्वः उत्तर-पूर्व- खुला, दक्षिणः दक्षिण-पूर्व- अन्य फ्लैट	27-11-2023 तक रु. 1315676/- (रुपये तेरह लाख पंद्रह हजार छह सौ छिहत्तर मात्र) के लिए	19/02/20 ( सांकेतिव
2.	(ऋण कोड संख्या- BLSA0001FB7D), (आगरा- शाखा), मोहम्मद कुरैशी (कर्जदार)/ तंजुम इशरत जहां (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- ईडब्ल्यूएस हाउस नंबर ई-3/1383, ग्राउंड फ्लोर, और ई-3/1384, पहली मंजिल, शहीद नगर, ताजगंज वार्ड, मूर्ति सुभाष चंद्र के पास, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश। उत्तर: 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः सीढ़ियां, पूर्वः सामान्य मार्ग, दक्षिणः मकान नंबर ई-3/1381 और ई-3/1382	17-08-2024 तक रु. 3677547.04/- (रुपये छत्तीस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ सैंतालीस और चार पैसे मात्र) के लिए	19/02/20 ( सांकेतिव
3.	(ऋण कोड संख्या- HLSA0000B4E0), (दिल्ली शाखा-शाखा), शोएब खान (कर्जदार) ⁄कल्लो तौसिफ (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- फ्लैट नंबर एफ.एफ3, पहली मंजिल (पीछे बाईं ओर) बिना छत के अधिकार के, एलआईजी, प्लॉट नंबर बी-1/22, डी.एल.एफ. अंकुर विहार, गांव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102, उत्तरः अन्य संपत्ति, पश्चिमः प्लॉट नंबर बी-1/21, पूर्वः फ्लैट नंबर एफएफ-4/प्लॉट नंबर बी-1/22ए, दक्षिणः फ्लैट नंबर एफएफ-2/सड़क 12 मीटर चौड़ी	17-08-2024 तक रु. 925138.38/- (रुपये नौ लाख पच्चीस हजार एक सौ अड़तीस और अड़तीस पैसे मात्र) के लिए	19/02/20 ( सांकेतिव
4.	(ऋण कोड संख्या-M0029345 और M0029345TU), (नोएडा शाखा- शाखा), यशवीर (कर्जदार) ∕अनीता,शिवम चौधरी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- मकान नंबर 122 (पुराना), नया घर 178, गली नंबर 02, सुभाष नगर, शिव मंदिर, मीरोट-250002, उत्तर प्रदेश। उत्तरः रास्ता 12 फीट (45'), पश्चिमः दीपक पटेल का घर (28'-5"), पूर्वः मुकेश पटेल का घर (28'-5"), दक्षिणः पार्क (45')	18-11-2024 तक रु. 4410534.88/- (रुपये चवालीस लाख दस हजार पांच सौ चौंतीस और अद्घसी पैसे मात्र) के लिए	20/02/20 ( सांकेतिव
5.	(ऋण कोड संख्या-1460000923), (मेरठ-शाखा), अंशुमान दीक्षित (कर्जदार)/किरण शंकर दीक्षित (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर बी-306 पॉकेट-बी सेक्टर-01 वेदव्यासपुरी कॉलोनी सुभारती यूनिवर्सिटी के पास एनएच- 58 मेरठ उत्तर प्रदेश - 250001	26-06-2023 तक रु. 2103874/- (रुपये इक्कीस लाख तीन हजार आठ सौ चौहत्तर मात्र) के लिए	20/02/2 ( सांकेति
6.	(ऋण कोड संख्या-131000000980), (नोएडा 1 राजेंद्र प्लेस-शाखा), बिंदल एंड बिंदल बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) ∕पंकज अग्रवाल, दिशा अग्रवाल (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- हाउस नंबर-142 ब्लॉक-बी सेक्टर-50 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश:- 201301, उत्तर: रोड, पश्चिम: संपत्ति नंबर बी-141, पूर्व: संपत्ति नंबर बी-143, दक्षिण: संपत्ति नंबर बी-153	16-11-2024 तक रु. 82394863/- (रुपये आठ करोड़ तेईस लाख चौरानबे हजार आठ सौ तिरसठ मात्र) के लिए	20/02/2 ( सांकेति
7.	(ऋण कोड संख्या - PHTUDEL04000603 और PHBTDEL04000597), (दिल्ली शाखा-शाखा), संदीप पांडे (कर्जदार) / सुमन पांडे (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- संपत्ति नंबर 2 और 3 खसरा नंबर 78/4 ब्लॉक सी ना देसी ढाबा के पास गांव हस्तसाल ओम विहार फेज क्क्क उत्तम नगर नई दिल्ली 110059	16-10-2024 तक रु. 4752157.37/- (रुपये सैंतालीस लाख बावन हजार एक सौ सत्तावन और सैंतीस पैसे मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
8.	(ऋण कोड संख्या-28300001046), (रोहतक-शाखा), गोबिंद नारायण झा (कर्जदार) ∕सुधा झा (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर बी-59, (पुराना नंबर 415), टीएफ (पीछे की तरफ) बिना छत के अधिकार के, गली नंबर-8, खसरा नं. 58/23/2 गांव पालम राज नगर-2 उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली -110077, उत्तरः संपत्ति का हिस्सा उसके बाद सड़क 20 फीट, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, पूर्वः गली 15 फीट, दक्षिणः गली 10 फीट	16-09-2024 तक रु. 1186443/- (रुपये ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
9.	(ऋण कोड संख्या- M0191054), (दिल्ली-द्वारका-शाखा), जगमोहन सिंह (कर्जदार) ∕भूप सिंह (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग-16, ईडब्ल्यूएस, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-बी, सेक्टर-12, थास राम प्रस्थ, गांव महाराजपुर, लोनी, गाजियाबाद-201011, उत्तर प्रदेश उत्तरः सड़क 30 फीट, पश्चिमः संपत्ति नंबर बी-15, पूर्वः संपत्ति नंबर बी-17, दक्षिणः ग्रीन बेल्ट और रेलवे लाइन	18–11 –2024 तक रु. 2670207.28/– (रुपये छ्ब्बीस लाख सत्तर हजार दो सौ सात और अट्टाईस पैसे मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
10.	(ऋण कोड संख्या-M0264940), (मेरठ-शाखा), आरिफ (कर्जदार) ⁄सबाना (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- खसरा नंबर 1901, स्थित - नया और अविकसित कॉलोनी, अंदर नगर पालिका परिषद, सरधना, झिटकारी रोड के पास, पीए, मेरठ-250342, उत्तर प्रदेश, उत्तरः इमामुद्दीन का प्लॉट/ आकार- 461, पश्चिमः 12' चौड़ी सड़क / आकार- 21'10", पूर्वः अन्य की संपत्ति / आकार- 21'10", दक्षिणः जमशेद का मकान, आकार- 46'3"	18-11 -2024 तक रु. 1457759.68/-(रुपये चौदह लाख सत्तावन हजार सात सौ उनसठ और अड़सठ पैसे मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
11.	(ऋण कोड संख्या-19000001350), (राज नगर-शाखा), राकेश कसाना (कर्जदार) ∕अंजू देवी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- एफएफ-2 सामने की तरफ बाईं ओर पहली मंजिल प्लॉट नंबर डी-417 ब्लॉक-डी टीला मोड़ के पास इंद्रप्रस्थ कॉलोनी लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश:- 201102, उत्तर: प्लॉट नंबर 418, पश्चिम: सड़क, पूर्व: प्लॉट नंबर 446, दक्षिण: प्लॉट नंबर 416	16-10-2024 तक रु. 1552213/- (रुपये पंद्रह लाख बावन हजार दो सौ तेरह मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
12.	(ऋण कोड संख्या-27900001942), (ग्रेटर नोएडा-शाखा), राकेश कुमार (कर्जदार) /अलका देवी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- मकान नंबर- बी-3, खसरा नंबर- 244 मिन, न्यू आनंद विहार कॉलोनी, गांव- सादुल्लाबाद, लोनी, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेशः- 201102, उत्तरः अन्य संपत्ति, पश्चिमः भूखंड का हिस्सा, पूर्वः अन्य संपत्ति, दक्षिणः भवन के सामने /सड़क	17-08-2024 तक रु. 768537/- (रुपये सात लाख अड़सट हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
13.	(ऋण कोड संख्या-26600001460), (दिल्ली राजौरी गार्डन-शाखा), समसद (कर्जदार) ∕बीबी मोहिफान (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- संपत्ति संख्या- डब्ल्यूजेड-634, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 1575, पुराने लाल डोरा गांव की आबादी- तिहाड़ नई दिल्ली:-110018, उत्तरः अन्य संपत्ति, पश्चिमः सड़क, पूर्वः अन्य संपत्ति, दक्षिणः अन्य संपत्ति	16-09-2024 तक रु. 1432038/- (रुपये चौदह लाख बत्तीस हजार अड़तीस मात्र) के लिए	21/02/2 ( सांकेति
14.	(ऋण कोड संख्या-20000042490), (नोएडा-सेक्टर 2-शाखा), मोमी रॉय प्रधान (कर्जदार) / सुब्रत कुमार प्रधान (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- यूनिट नंबर टी 7-191 19वीं मंजिल टॉवर 7 केवीडी विंड पार्क प्लॉट नंबर- जीएच-09 बी टेकजोन- 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट जी बी नगर गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश:-201305	(रुपये बारह लाख आठ हजार तीन सौ तिरपन मात्र) के लिए	22/02/2 ( सांकेति
15.	(ऋण कोड संख्या-M0029500), (दिल्ली शाखा-शाखा), जगपाल सिंह (कर्जदार) ∕संदीप सिंह, रितु रानी (सह-कर्जदार)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- म्यू. और किला नंबर 19//21/1/1, विवेकानंद नगर, हसनपुर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा-124001. उत्तरः 45', अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 20', अन्य की संपत्ति, पूर्वः 20', सड़क 20 फीट चौड़ा, दक्षिणः 45', अन्य की संपत्ति	17-08-2024 तक रु. 1676567/- (रुपये सोलह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) के लिए	22/02/2 ( सांकेति

(ऋण कोड संख्या-24900000777), 'दिल्ली - पीतमपरा-शाखा), विकास भट्ट (कर्जदार) /

गीता भट्ट (सह-ऋणकर्ता)

जरीना बेगम (सह-कर्जदार)

रोहताश रोहताश ( कर्जदार)/

शकंतला ( सह–कर्जदार )

(गुड़गांव शाखा-शाखा).

सपना (सह-कर्जदार)

(गुड़गांव-शाखा).

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर- जी-1/1081, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर खसरा नंबर–292, गांव चंद्रावली उर्फ मानसरोवर पार्क, शाहदरा नई दिल्ली:-110032, उत्तरः प्लॉट नंबर-जी-13/1082, पश्चिमः प्लॉट का हिस्सा, पर्वः सडक, दक्षिणः प्लॉट का अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर-318 ब्लॉक नंबर-

सी सेक्टर-10, औद्योगिक नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश:-मोहम्मद असलम खान (कर्जदार) / 201301, उत्तरः प्लॉट सी-317, पश्चिमः सडुक, पुर्वः अन्य. दक्षिणः

(ऋण कोड संख्या- M0033973), अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- खेवट नंबर 428/479, शाहजहांपर, शाहजहांपर 189 मंदिर, फरीदाबाद- 121101, उत्तरः सुंदर और शिशि पाल का प्लॉट, पश्चिमः सड़क 20 फीट चौड़ा (प्रवेश), पूर्वः श्री सूरज पाल का प्लॉट, दक्षिणः सड़क 10 फीट चौड़ा

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- फ्लैट जीएफ 3, ग्राउंड फ्लोर, (ऋण कोड संख्या-M0099596) प्लॉट सी 212, खसरा 428 और 429, सादुल्लाबाद परगना लोनी, एकेश कुमार गुप्ता (कर्जदार) 🖊 पावर हाउस के पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010, उत्तरः प्लॉट सी 213, पश्चिमः सड़क, पूर्वः अन्य संपत्ति, दक्षिणः प्लॉट सी 211 (ऋण कोड संख्या - M0114976),

आगरा-शाखा ). नंबर 47, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, क्वालिटी मार्बल स्टोन के पास, तहसील | एमनजीत (कर्जदार) मीना ( सह–कर्जदार) 25' चौडी सडक, पुर्वः अन्य प्लॉट, दक्षिणः अन्य प्लॉट (ऋण कोड संख्या-23400003719), 'आगरा-शाखा ) मुकेश शर्मा (कर्जदार) 🗸

प्रमिला शर्मा (सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या-HLSA00044EA9 ), ( नोएडा सेक्टर 2-शाखा ). जगदीश (कर्जदार)

रोहित, हर्ष कुमार (सह-कर्जदार) 23 (ऋण कोड संख्या-196DEL35799), (गुरुग्राम -

एमजी रोड-शाखा) नीरज कमार (कर्जदार) बलबीर सिंह, कविता रानी (सह-कर्जदार) 🔏 (ऋण कोड संख्या-

197GUR35018), (गुडगांव सोहना रोड-शाखा) प्रदीप कात्यायन (कर्जदार) / इंदु देवी (सह-कर्जदार)

(रुपये पच्चीस लाख सत्तावन हजार

आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017-

www.readwhere.com

डी-58 डिफेंस कॉलोनी, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली-110024

संजय गप्ता

2018/10354

पंजीकृत पता: प्राइमस इन्सॉल्वेंसी रेजोल्युशन एंड वैल्युएशन प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : दिल्ली-एनसीआर तिथि : 25.02.2025

22/02/2025 (रुपये नौ लाख नब्बे हजार एक सौ ( सांकेतिक ) उनहत्तर मात्र) के लिए 18-11-2024 तक रु. 3027184/- 22/02/2025 (रुपये तीस लाख सत्ताईस हजार एक

सौ चौरासी मात्र) के लिए (रुपये बारह लाख तैंतालीस हजार सात सौ पांच मात्र) के लिए

18-11-2024 तक रु. 1083827/- 22/02/2025 (रुपये दस लाख तिरासी हजार आठ ( सांकेतिक ) सौ सत्ताईस मात्र) के लिए

22/02/2025

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर 43 (भाग), खसरा 22/02/2025 18-11-2024 तक रु. 1208938.02/-(रुपये बारह लाख **( सांकेतिक** ) आठ हजार नौ सौ अड़तीस और दो

और जिला–आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरः मंजू का घर, पश्चिमः 16-10-2024 तक रु. 1711226/- 22/02/2025 (रुपये सत्रह लाख ग्यारह हजार दो सौ 🛮 ( **सांकेतिक** )

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग– फ्लैट नंबर–308, दुसरा फ्लोर ब्लॉक-8 तुलसी बजट विला एक्सटेंशन खसरा नंबर 211 (भाग) और छब्बीस मात्र) के लिए 217 मौजा पथोली आगरा उत्तर प्रदेश:- 283105, उत्तर: फ्लैट नंबर 307, पश्चिमः खुला आसमान और नीचे सड़क, पूर्वः खुला आसमान, दक्षिण: अन्य संपत्ति अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग– प्लॉट नंबर बी2 एलआईजी. 16-10-2024 तक

1077340.15/-(रुपये दस लाख पहली मंजिल 6 बिना छत के अधिकार के, खसरा नंबर 234, पीछे सतहत्तर हजार तीन सौ चालीस और दाई ओर से बाई ओर का हिस्सा, रेल विहार ब्लॉक 40 फीट रोड के पंद्रह पैसे मात्र) के लिए पास. सादलाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102, उत्तरः आरएचएस फ्लैट फिर प्लॉट नंबर बी-3, पश्चिमः अन्य जमीन, पूर्वः कॉरिडोर, सामने की तरफ के फ्लैट फिर सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिणः बाईं तरफ के फ्लैट फिर प्लॉट नंबर बी-1 का हिस्सा अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग– एच/फ्लैट नंबर डी 201, फ्लोर 18-11-2024 तक रु. 2557844/- 22/02/2025

नंबर सेकंड, प्लॉट नंबर टॉवर डी , जेनेसिस फ्लोरा, गांव भिवाड़ी

आठ सौ चौवालीस मात्र) के लिए राजस्थान - 301019 अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- मकान/फ्लैट नंबर डी 005, 16-09-2024 तक रु. 1104818/- 22/02/2025 (रुपये ग्यारह लाख चार हजार आठ फ्लोर नंबर ग्राउंड, प्लॉट नंबर टावर डी, जेनेसिस फ्लोरा, सेक्टर सौ अठारह मात्र) के लिए अलवर बायपास रोड, गांव भिवाडी राजस्थान:- 301019

हस्ता./- (अधिकत प्राधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिसमापक- फ्यूचर रिटेल लिमिटेड